



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 609 ]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 27, 2001/भाद्र 5, 1923

No. 609]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 27, 2001/BHADRA 5, 1923

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2001

का.आ. 824(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ पचपनवां संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में, "पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय" शीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 1 और 2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"1. प्राकृतिक गैस और कोल बेड मेथेन सहित पैट्रोलियम संपदा के लिए खोज और उसका दोहन।

2. प्राकृतिक गैस, कोल बेड मेथेन और पैट्रोलियम उत्पादों सहित पैट्रोलियम का उत्पादन, सप्लाई, वितरण, विपणन और मूल्य निर्धारण।"

के. आर. नारायणन

राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/2001-कैबिनेट]

अतुल कौशिक, उप सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2001

S.O. 824(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and fifty-fifth Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule, under the heading "Ministry of Petroleum and Natural Gas (Petroleum and Natural Gas Mantralaya)", for entries 1 and 2, the following entries, shall be substituted, namely :—

"1. Exploration for, and exploitation of petroleum resources including natural gas and coal bed methane.

2. Production, supply, distribution, marketing and pricing of petroleum including natural gas, coal bed methane and petroleum products."

K. R. NARAYANAN

President

[F.No. 1/22/1/2001-Cab.]

ATUL KAUSHIK, Dy. Secy.

